



**SHREE KRISHNA PAPER
MILLS & INDUSTRIES LIMITED**
(WE RECYCLE WASTE)

SKPM/SEC.DEPT/2020-21
SEPTEMBER 02,2020

To,
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Deptt.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code:500388

SUB : Public Notice of AGM, Book Closure and remote e-voting

Dear Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith a copy of public notice for 48th AGM of the Company, Book Closure and Remote e-voting.

We hope you will find the same in order.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

Ritika priyam
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No: A53502

Encl: As above

Visit us at : www.skpmil.com

REGD. OFFICE : 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002
Ph. : 91-11-46263200, 23261728, 23267253 Fax : 91-11-23266708 E-mail : info@skpmil.com
WORKS : Plot No. SPL-A, RIICO Industrial Area, Vill. & P.O. : Keshwana, Tehsil Kotputli,
Distt. : Jaipur-303108 (Rajasthan) Ph. : 7229860222, 7229860333 E-mail : keshwana@skpmil.com
CIN No. : L21012D1972PLC279773 www.facebook.com/shreekrishnapaper

Discoms to get 5 more years for turnaround

UDAY schemetargets in 201 5 likely to be extended till 2024-25

SHREYA JAI
New Delhi, 1 September

State-owned power distribution companies (discoms), which continue to make financial and operational losses, will get five more years for turnaround under the new Reforms-linked Distribution Scheme to be floated by the Centre.

The targets stipulated in 2015 under the UDAY scheme could be extended till 2024-25.

The earlier discoms reform scheme, UDAY, concluded in FY20 with most of the states failing to meet their stipulated targets. The aggregate technical & commercial (AT&C) loss or power supply loss due to inefficient systems was supposed to come down to 15 per cent and average cost-revenue (ACS-ARR) gap of discoms down to zero by FY20.


However, AT&C loss currently stands at 23.9 per cent and cost-revenue gap at 0.53 paise per unit, according to the UDAY portal. The numbers are the national average of FY20 and the indicative data of six states during Q1FY21.

In a presentation made during the state power ministers' conference in July, Union ministry officials had said Reforms-linked Distribution Scheme will have the deadline of 2024-25. "The main objectives of the scheme are to improve the reliability and quality of power supply; enhance the financial and operational performance of utilities and reduce AT&C losses to 12-15 per cent and ACS-ARR gap to zero by 2024-25," he said.

Business Standard has reviewed the minutes of the meeting. The ministry in its presentation stated the funds under the scheme would be released in proportion to the achievement by the discoms against the mutually agreed targets in the action plan. UDAY had similar scheme design wherein funds for schemes and loans by financial institutions were linked to loss reduction of the discoms.



POWER POINTS



*Estimated; AT&C: Aggregate technical & commercial losses/power supply loss due to inefficient systems Source: UDAY portal

Sources said the scheme could have an estimated capital outlay of ~2-2.5 trillion and would aim at better infrastructure, smart meters and private franchisee model for improving power supply in the states. "India is embarking on another discoms' reform. The expectation is this new reform will incorporate the learnings from UDAY 1. The need of the hour is to build enough incentives and penalties in the new system to drive the performance on key parameters," said Mohit Kumar, senior vice-president, IDFC Securities.

This new reform scheme comes at a time when the Centre has already rolled out a special loan scheme for the discoms in lieu of bringing down their losses and dues to the power generating and transmission companies which touched a record high of ~1.11 trillion in July.

In June, Finance Minister Nirmala Sitharaman, in her Atmanirbhar Bharat package,

announced a special loan scheme for the discoms at an estimated outlay of ~90,000 crore. To avail of the loan, states would need to clear the dues of government departments to the discoms and give state guarantee to the lenders. The discoms would also need to indicate a trajectory of loss reduction — both financial and operational.

Several states have now cleared their dues and the total dues came down to ~42,131 crore at the end of July.

At the same time, the Union power ministry has introduced amendments to the Electricity Act, 2003, to enable turnaround of discoms. This includes encouraging states to tie up private franchisee for power supply, introduce direct benefit transfer (DBT) of electricity subsidy and phase out cross-subsidy charges levied on industrial consumers.

But several states, including Bihar, Rajasthan, West Bengal, Odisha, and Kerala, have opposed this proposal, citing threat of privatisation and increase in the rates of electricity. Some states also mentioned implementation challenges for DBT in electricity.

The power ministry, however, pointed out that these were only enabling provisions for use by discoms which may want to give out some areas to franchisees/sub-licensees at their discretion. Officials said DBT in electricity will improve energy accounting and ensure that the discoms get paid for the electricity supplied.

SC to decide on moratorium interest waiver issue today

ARUP ROYCHOUDHURY
New Delhi, 1 September

The Centre and the Reserve Bank of India (RBI) informed the Supreme Court on Tuesday that the moratorium on repayment of loans must be extendable to two years under certain conditions. And, the sectors most distressed by the economic slowdown are being identified.

"We are in the process of identifying the distressed sectors as per impact of the hit they have taken," Solicitor General Tushar Mehta told the three-judge Bench, headed by Justice Ashok Bhushan.

The apex court said it would hear the matter again and decide on Wednesday a bunch of petitions demanding waiver of interest, or waiver of interest on interest on the suspended monthly instalments during the moratorium period.

The Bench was hearing a plea challenging levy of interest on loans during the moratorium period.

The plea, filed by Agra resident Gajendra Sharma, sought a direc-

Microfinance body issues advisory for member firms as moratorium ends



Microfinance Institutions Network (MFIN), an industry association for microfinance companies, on Tuesday said it had issued an advisory to members on engaging with borrowers following the end of the moratorium on August 31. MFIN said the detailed advisory was a reiteration of points covered in Industry Code of Conduct and Code of Responsible Lending such as fair interactions with borrowers, ensuring transparency, training for employees engaging with borrowers, among several others, and also covered safeguards for Covid-19.

tion to declare the portion of the RBI's March 27 notification as something beyond the bank's legal power or authority. That is, to the extent that interest on the loan amount charged during the moratorium period creates hardship to the petitioner being the borrower. It creates hindrance and obstruction in 'right to life' guaranteed by Article 21 of the Constitution.

The Supreme Court had observed in June that the question is not of waiver of complete interest

for entire moratorium period but it is limited only to interest charged on interest by banks.

It had also observed that the charging of interests by banks during the six-month moratorium period on term loans was 'detrimental'.

The RBI, on its part, had submitted that a waiver of interest on loans will impact the financial viability of the country's financial sector. It also said banks could forgo about ~2 trillion in interest income

if interests are waived for the six months duration of the moratorium.

On Tuesday, the Solicitor General suggested a meeting of representatives of the finance ministry with the RBI and banks to find a solution.

He also sought more time on behalf of the Centre and requested the Bench to examine the affidavit submitted by the government. The Bench, however, said the final hearing will be on Wednesday.

The RBI's circular on personal

loan restructuring says that the resolution plans may include rescheduling of payments or granting of moratorium, based on an assessment of income streams of the borrower, subject to a maximum of two years.

"Correspondingly, the overall tenor of the loan may also get modified commensurately. The moratorium period, if granted, shall come into force immediately upon implementation of the resolution plan," it said.

Bank of Maharashtra to put conflict of interest safeguards for loan recast

SOMESH JHA
New Delhi, 1 September

Bank of Maharashtra has put in safeguards to ensure loans are not restructured in a way that it leads to conflict of interest between borrowers and bank executives, said managing director and chief executive officer (MD and CEO) A S Rajeev.

"Our board has approved the loan restructuring policy. The restructuring powers have been delegated to the next higher authority that had initially sanctioned the loan to that particular borrower. This will ensure that there is no conflict of interest involved while restructuring takes place," Rajeev said in a telephonic interview to Business Standard.

For instance, if a loan has been approved by a branch manager, a



MD and CEO A S Rajeev says the lender will look at cash flow as a key parameter for approving loan-recast proposals

scale-II officer, then the restructuring application can only be processed by the senior branch manager who is a scale-III officer.

Rajeev said the bank would be "purely" looking at cash flow as a

key parameter for approving loan recast proposals.

"We have defined all the best practices and processes. The loan restructuring will be strictly based on the Reserve Bank of India (RBI) guidelines and before extending the restructuring benefits, we will verify whether the business of the borrower is really impacted by the pandemic," the chief executive of the bank said.

The bank estimates that loans worth around ~4,000 crore will be restructured based on a recent stress test. As of June-end, around 23 per cent of the total loan book was under moratorium. It fell to around 17 per cent at the end of August. The bank will conduct another stress test in the first week of September to determine the amount of loans that will require

restructuring. "Meanwhile, we have asked bank branches to contact borrowers to give applications for restructuring, along with submitting evidence, to prove that the pandemic has impacted them," he said.

The bank estimates that around 2-3 per cent of its retail and corporate borrowers each will opt for loan restructuring. The bank has completed restructuring for most MSME accounts (worth ~1,200 crore) according to an already existing scheme and only about another ~200-300 crore worth MSME loans would require restructuring.

He said the bank had a "healthy" capital adequacy ratio of 13.52 per cent and in case of worst-case scenario, it may reduce by 0.5-0.5 per cent, according to the bank's stress test.

Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited
CIN : L21012DL1972PLC279773
Registered Office: 4830/24, Prahad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110 002
E-mail: info@skpmil.com, Website: www.skpmil.com
Tel: 91-11-46263200 Fax: 91-11-23266708

NOTICE OF 48th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 48th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 10:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 has been sent on September 01, 2020 only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.skpmil.com and website of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com.

Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, by sending a mail to delhi@linkintime.co.in or shawmunt.kushwah@linkintime.co.in along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report. Notice of AGM and the e-voting instructions.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and the MCA Circular, the member are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by Link Intime India Private Limited on all resolution set forth in the Notice of 48th AGM.

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from Saturday, September 26, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 28, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 28, 2020. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Company has appointed Mr. Manish Kumar Bansal (Advocate), partner of Globiz Partners as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure at AGM in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, September 22, 2020. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to shawmunt.kushwah@linkintime.co.in to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM. Members may go through the detailed procedure/instructions for e-voting explained in the notice of the AGM.

The results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e. on or before October 2, 2020 and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's report will be placed on the website of the Company www.skpmil.com.

In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQs) and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or may contact Mr. Swapann Kumar Naskar, AVP - North India Operations, Link Intime India Private Limited, Telephone No. 011-49411000, email ID: swapann@linkintime.co.in or Contact Ms. Ritika Priyam, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the registered office on 011-46263200 or email at info@skpmil.com or cs@skpmil.com who will address the member's grievances connected.

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020, both days inclusive, for the 48th AGM and for determining the entitlement of members for the purpose of AGM for the financial year ended March 31, 2020.

By Order of the Board of Directors
For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.
Sd/-
Ritika priyam
Company Secretary Cum Compliance Officer
Place : New Delhi
Date : September 01, 2020
Mem No: A33502

Nahar SPINNING MILLS LIMITED
Regd. Office: 373, Industrial Area-A, Ludhiana-141003
CIN: L17115PB1980PLC004341
Phone No.: 0161-2600701-705, Fax No.: 0161-2661180
E-mail: secnsm@owmnahar.com, gredressalnsml@owmnahar.com
Website: www.owmnahar.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

1. Notice of AGM: NOTICE is hereby given that FORTIETH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF NAHAR SPINNING MILLS LIMITED ("the Company") will be held on **Tuesday, the 29th day of September, 2020 at 11:00 am** through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM") in compliance with Section 96 of the Companies Act, 2013 read with MCA Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020.

Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special Business to be transacted thereof together with the Annual Report, inter alia, including the Audited Financial Statements for the year ended 31.03.2020, Auditors Reports, Directors Reports will be sent electronically only to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository Participant in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020.

Members are hereby informed that Notice of the Meeting and aforesaid documents are available on the Company's website i.e. www.owmnahar.com. The said Notice is also available on the website of CDSL i.e. www.cdslindia.com and website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and BSE Ltd. at www.bseindia.com.

2. E-Voting: Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that Company is providing facility of remote e-voting and e-voting during the AGM to all shareholders for transacting the Businesses (Ordinary as well as Special) mentioned in the Notice convening 40th Annual General Meeting of the Company.

The communication setting out the procedure for Remote e-voting and e-voting during the AGM, inter alia, containing the User-Id and password alongwith the copy of the Notice convening the AGM will be dispatched to the members. The Company has provided a platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com for remote e-voting. The EVSN (E-voting Sequence Number) allotted to the Company by CDSL is 200831060. The members attending the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote by remote e-voting are entitled to vote during the AGM via e-voting. A Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be entitled to vote again.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can contact the Company Secretary of the Company at gredressalnsml@owmnahar.com for receiving the Notice and Annual Report for casting their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM.

The Remote e-voting period shall commence on **Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 a.m. and close on Monday, 28th September, 2020 at 5:00 p.m.** The Remote e-voting shall not be allowed beyond the specified date and time and the e-voting/Module shall be disabled by CDSL for the e-voting thereafter. Once the vote on a resolution(s) is casted by the member the same cannot be changed subsequently.

A member, whose name appears on the Register of Members or Register of Beneficial Owners on the **CUT OFF DATE i.e. 22nd September, 2020**, only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting and e-voting during the AGM. Any person, who becomes the member of the company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares on the cut off date i.e. 22nd September, 2020 may obtain the User id and password by sending a request at e-mail gredressalnsml@owmnahar.com. Thereafter, he/she will follow the same instructions for voting through electronic mode as mentioned at Note No. 22 of the Notice of the AGM.

In case of any query or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at the www.evotingindia.com under help section and write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com, or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). In case of any query/grievances related to e-voting, Mr. Brij Sharma, Company Secretary of the Company can be contacted at Registered Office address or through email- gredressalnsml@owmnahar.com and Phone No. 0161-5066255.

In continuation to our earlier Notice dated 24.08.2020, Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company can send e-mail to the Company at gredressalnsml@owmnahar.com or to the Registrar of the Company: M/s. Alankit Assignments Ltd. at rta@alankit.com.

The Company shall declare the results of the voting after the counting of the votes and submission of the report by the Scrutinizer and the results shall also be updated on company's website i.e. www.owmnahar.com and on CDSL's website: www.cdslindia.com. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE.

By order of the Board
FOR NAHAR SPINNING MILLS LIMITED
Sd/-
BRIJ SHARMA
(COMPANY SECRETARY)

DATE: 31.08.2020
PLACE: LUDHIANA

India among large EMs set for highest debt burden by 2021, says Moody's

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 1 September

Moody's Investors Service on Tuesday said India would be among the large emerging market sovereigns to have highest debt burden by 2021.

The Covid-induced deterioration in growth and fiscal dynamics will leave most large emerging market sovereigns with higher debt burdens over the next few years, it said.

We expect government debt in the large emerging market sovereigns to rise by almost 10 percentage points of GDP on average by the end of 2021, from 2019 levels, driven primarily by wider primary deficits, although some are likely to see higher interest payments contributing to higher debt, Moody's said.

"Debt burdens in Brazil, India, and South Africa will rise to among the highest across the large emerging market sovereigns by 2021," Moody's said.

The US-based rating agency said medium-term growth and fiscal challenges pose downside risks as some of these nations face economic risks and potential revenue shortfalls beyond the immediate shock, given their exposure to commodities, tourism and generally sectors exposed to lasting changes in behaviours, weak global demand and persistently weaker productivity growth.

"Fragile financial systems and/or contingent liabilities compound this risk for India, Mexico, South Africa, and Turkey," Moody's noted.

It further said in India, increased stress within the financial system, among banks and non-bank financial companies, raises contingent liability risks to the sovereign.

RUCHIKA CHITRAVANSHI
New Delhi, 1 September

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is planning to introduce standards for forensic accounting and investigation by setting quality benchmarks and procedures for activities that would make the collection of evidence withstand high level of legal scrutiny.

"There are a large number of investigations going on and we find that many times forensic reports are not admissible

August receives 27% more rainfall, fourth highest in 120 years



A low-lying area in Prayagraj submerged in flood waters on Tuesday, following heavy rainfall, as water levels of the Ganga and Yamuna rose

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 1 September

The country received 27 per cent more rainfall than normal in August, the fourth highest amount in the past 120 years, the India Meteorological Department (IMD) said.

The overall rainfall recorded in India from June 1 to August 31 was 10 per cent more than normal, the IMD said on Monday. "August has recorded 27 per cent more rainfall than normal," R K Jenamani, scientist with IMD's national weather forecasting centre, said. "Rainfall recorded in August 2020 is the fourth highest in the last 120 years and highest in 44 years," Jenamani said.

This is also one of the rainiest months of August recorded. The August of 1926 saw 33 per cent more rainfall than normal, the highest pre-

cipitation recorded so far in the month; 1976 recorded 28.4 per cent more rainfall than normal, while the August of 1973 recorded 27.8 per cent than normal. This year saw 27 per cent rainfall.

Mahesh Palwat, vice-president, Skymet Weather, said due to formation of five low pressure areas in Bay of Bengal in August, the month recorded excess rainfall. A low pressure area is a cyclonic circulation. It is also the first stage of a cyclone. However, it is not necessary that every low pressure develops into a cyclonic storm.

"August saw unusually high formation of low pressure areas. Of the five, three even reached Gujarat and Rajasthan. One low pressure area intensified into a deep depression, while another developed into a well-marked low pressure area. This gave good rainfall over Central and East India," said Palawat.

ICAI to set standards for forensic probe

in the court of law... This can be addressed by putting standard practices in place for such accounting which do not exist currently," said Atul Kumar Gupta, president, ICAI.

ICAI will issue draft guidelines by the end of December to invite public comments and also seek views of MCA, Sebi, RBI, CAG, and various investigation agencies as well. In a statement, ICAI said that these standards would give ICAI members "a good overview of the forensics and investigations, how to under-

would be useful for agencies, corporates, banks, and other stakeholders to appreciate the common practices and understand finer nuances of conducting forensic accounting and investigations. "Forensic accounting and investigation professionals will be able to contribute in judicial proceedings as experts."

These standards, ICAI said, will be principle based and stipulate certain basic but mandatory requirements to be fulfilled by members who undertake such assignments.

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एरलोन इस्टर्नयूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम -122001, हरियाणा
फोन : +91-124-4675500; **फैक्स :** +91-124-4370985
वेबसाइट : www.hbportfolioltd.com
ई-मेल : corporate@hbportfolioltd.com

सूचना

भारतीय प्रतिभुति एवं विनियम बोर्ड (एचबीएन दाब्लिव एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एवं एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 09 सितम्बर, 2020** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (एयूयक्यूट एवं संशोधित) विचारित तथा अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट, **www.hbportfolioltd.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट, **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड**

डिरेक्टर कपूर (कम्पनी सचिव)
M. No.: FCS-6731

तिथि : 01.09.2020
स्थान : गुरुग्राम

प्रप्रत्र – जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
 दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट वित्तियों को लिए ट्रान्ज़ शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण	
1 कार्पोरेट देनदार का नाम	मेरस गोल्डन पीकोंक रैजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगम की तिथि	27/01/2012
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमांत दाखिल पहचान संख्या	U70109DL2012PTC230637
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत पता के साथ प्रमाण कायावली (पारि कोड) का पता	यूनित नंबर 502, बिल्डिंग जी मॉल, मेताजी सुभाष लेस, कार्यालय (पारि कोड) का पता
6. कार्पोरेट देनदार की त्रण श्रेण अक्षमता आसम की तिथि	06/11/2019 (प्रमाणित प्रति 11/11/2019 को प्राप्त हुई)
7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	02/09/2020
8. सहिता की धारा 25(2)(ए) के अधीन समाधान आवेदकों की तिथि	विवरण को cirp.goldenpeacock@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
9. धारा 29क के अधीन लागू अग्रदाता के मानदंड:	विवरण www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध है।। आगे के विवरण (पारि कोड) की, cirp.goldenpeacock@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	18/09/2020
11. समाहित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	28/09/2020
12. अंतिम सूची के बारे में आपरिषया प्रस्तुत करने हेतु	03/10/2020
13. समाहित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	13/10/2020
14. समाहित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मेट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुसूच जारी करने की तिथि	03/10/2020
15. समाधान योजना, मूल्यांकन मेट्रिक्स, समाहित समाधान आवेदक, सूचना ज्ञापन और अधिक जानकारी प्राप्त करने सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना या कुरियर या व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में, समाधान प्रोफेशनल के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।	03/11/2020
16. समाधान प्रोफेशनल के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमति तिथि	30/11/2020
17. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जेसाकि वह ई पंजीकृत है	बी विवेक गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 पंजीकरण संख्या: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 ई-मेल: info@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com फोन नं.: 91-11-46263200, फैक्स : 91-11-23266708
18. निष्पाक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमति तिथि	30/11/2020
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	बी विवेक गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 पंजीकरण संख्या: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 ई-मेल: info@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com फोन नं.: 91-11-46263200, फैक्स : 91-11-23266708
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जेसाकि वह ई पंजीकृत है	बी विवेक गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 पंजीकरण संख्या: IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 ई-मेल: info@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com फोन नं.: 91-11-46263200, फैक्स : 91-11-23266708
21. पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है	पता: 257, वर्धमान सिटी सेंटर –2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली-110052 ई-मेल: jitesh@skgmilpa.com
22. अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	समाधान प्रोफेशनल की विवेक गुप्ता का पता पता: 257, वर्धमान सिटी सेंटर –2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली-110052
23. प्राप्त 'जी' की प्रकाशन की तिथि	02/09/2020

मेरस गोल्डन पीकोंक रैजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल **पंजीकरण संख्या:** IBBI/WIPA-002/IP-NO0144/2017-18/10380 **ई-मेल:** info@skpmil.com, **वेबसाइट:** www.skpmil.com **फोन नं.:** 91-11-46263200, **फैक्स :** 91-11-23266708

श्री कृष्णा पेपर मिल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 सीआईएन : L21012DL1972PLC29773
पंजी. कार्यालय : 4830 / 24, प्रहलाद नगर स्टैंड, अंसारी रोड, दरिया गांव, नई दिल्ली-110002
ईमेल: info@skpmil.com, **वेबसाइट:** www.skpmil.com
फोन नं.: 91-11-46263200, **फैक्स :** 91-11-23266708

48वीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई–मतदान जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 48वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) केवल ई–मतदान सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में यथावच्छिन्नित व्याख्या के निम्नान्वये हेतु मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /एच ऑडियो विडुजल जरिए ("ओवीएम") के माध्यम आयोजित की जायेगी।

एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्रों दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 और सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 के अनुपालन में केवल वीसी /ओवीएम माध्यम से आयोजित की जायेगी। एजीएम के लिए नई दिल्ली में स्थित श्री सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 सदस्यों निम्नके ई–मेल आईडी कंपनी या सीडीएसएस/एनएसएसए (डिजिटलाइज्ड) में पंजीकृत हैं, जो कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 01 सितंबर, 2020 को भेज दिए गए हैं और वे कंपनी की वेबसाइट **www.skpmil.com** और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्य विनियम अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं और फलस्वरूप एजीएम की सूचना और ई–मतदान निर्देश सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–मतदान निर्देश प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नं., स्व-सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोटोयोग की अवस्था में क्लाउड मास्टर प्रति और मौखिक फोटोयोग की अवस्था में शेयर सर्टीफिकेट की प्रति देते हुए अनुसूच पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की त्कषण प्रति के साथ **delhi@linkintime.co.in** या **shamwant.kushwaha@linkintime.co.in** पर ईमेल भेजकर कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकते हैं।

कंपनी (ग्राम्य एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, यथासंशोधित और और सेबी (सूचीबद्ध दाखिल और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के नियम 44, यथास्थिति कंपनी सचिव संचयन द्वारा जारी सांख्यिक मानक-4 और एससीए परिपत्र के अनुपालन में, 48वीं वार्षिक एजीएम में बलाये सभी संकल्पों को लिक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त रिमोट ई–मतदान (एजीएम से सूची) और ई–मतदान (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के सुविधा सदस्यों का प्रदान की गई है।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजीएम संचालन और ई–मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई–मतदान अवधि शनिवार, 26 सितंबर, 2020 (पूर्व, 09:00 बजे मा.मा.स.) को शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 (अप. 05:00 बजे मा.मा.स.) को समाप्त हो जायेगी। इस अवधि के दौरान मौखिक रूप या अमौखिक रूप में शेयर धारक कंपनी के पात्र सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। इससे बाद मतदान के लिए सहित इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई–मतदान मोड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात 28 सितंबर, 2020 सुबह अप. 5:00 बजे के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया होगा, को ई–मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी। सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई–मतदान से अपना मतदान कर चुके होंगे वे भी वीसी /ओवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित /भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान कर लिए पास नहीं होंगे।

कंपनी ने एजीएम में ई–मतदान प्रक्रिया निम्नक्ष और पारदर्शी तरीके से करने के लिए श्री मनीष कुमार बंसल (एडवोकेट), लोकबिज पार्टनर्स के मागीदारा को संबोधक नियुक्त किया है। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक होता है, वे **instameet@linkintime.co.in** पर अनुसूच प्रेषण लौटाना आईडी और ई–मतदान प्राप्त कर सकते हैं। रिमोट ई–मतदान माध्यम से मतदान और एजीएम में ई–मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धार के लिए कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 है, पर कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक होता है, वे अपने मतदान के लिए **shamwant.kushwaha@linkintime.co.in** पर अनुसूच भेजकर लौटाना आईडी और पारसाई प्राप्त कर सकते हैं। लौटाना आईडी और पारसाई प्राप्त करने और ई–मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। सदस्य एजीएम की सूचना में बताते ई–मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया /निर्देश देखें।

मतदान के परिणाम एजीएम समाप्त होने के 48 घंटों के अंदर अर्थात 2 अक्टूबर, 2020 तक घोषित किए जायेंगे और वे घोषित परिणाम सेमेकि संवीक्षक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.skpmil.com** पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ई–मतदान संबंधी कोई पूछताछ या समस्या की अवस्था में सदस्य **https://instavote.linkintime.co.in** पर ईमेल संचयन के तहत उपलब्ध फ़िनेटेडली आरक्ष वेबपेन ("एफएचए") और ईस्टाटेल ई–मतदान में, नुअल देखें या श्री स्वपन कुमार नास्कर, एवीबी – नॉर्ड इंडिया ऑपरेशन्स, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोन नं. 011-49411000, ईमेल आईडी: **swapan@linkintime.co.in** को संपर्क करें या 48 घंटे की कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी सुश्री रिशिका डियम को पंजीकृत कार्यालय में 011-46263200 पर या ईमेल **info@skpmil.com** या **cs@skpmil.com** पर संपर्क करें जो सदस्य की संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभुति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दाखिल और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसार कंपनी का सदस्य रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण बह 48वीं एजीएम उद्देश्यरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम उद्देश्यरूप हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण हेतु, बुधवार, 23 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020, दोनों दिन शामिल, तब तक रहेगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
 हिते **श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
 हस्ता./—
 रिशिका डियम
 कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
 सदस्यता सं. P53602

ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. बी–26, इस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरुग्राम, हरियाणा –122001
सीन: L30103HR1983PLC026142, **Website:** www.omaxauto.com, **Email:** investors@omaxauto.com, **Phone:** +91-124-4345000, **Fax:** +91-124-2580016

अवी वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

कोविड–19 महामारी के चलते, निगमित मामलों के मंत्रालय ("एससीए") ने जारी परिपत्र सं. क्रमशः 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 ("एससीए परिपत्रों") के तहत कॉमन स्थान पर सदस्यों की मौखिक स्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो/ वीडियो माध्यमों ("ओवीएम") सुविधा द्वारा वार्षिक आम बैठक एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत नये नियमों के प्रावधानों, सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P-2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और एससीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में कॉमन स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीसी /ओवीएम सुविधा द्वारा शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को सुबह 10:00 बजे कंपनी की 37वीं एजीएम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है।

सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों और एससीए परिपत्रों के तहत, ई–वोटिंग सहित वीसी /ओवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण के सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की 37वीं सूचना ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) या उनके संबंधित डिजिटलाइज्ड प्रतीमागी (सी) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी /ओवीएम सुविधा के माध्यम से ही 37वीं एजीएम में जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने के निर्देश 37वीं एजीएम सूचना में दिए गए हैं। वीसी /ओवीएम सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरप में पूरा करने के लिए की जाएगी। 37वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.omaxauto.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी ने 37वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विवरित निर्देश 37वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। मौखिक भाग में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते कंपनी या आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं किए हैं, वे **delhi@linkintime.co.in** पर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुसूच भेजकर ई–वोटिंग सहित वीसी /ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण और 37वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्ति (आगे व पीछे), पैन कार्ड के लिए-सत्यापित स्कैनड प्रति और आधार कार्ड प्रदान कर **investors@omaxauto.com** पर कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं। अमौखिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई–मेल पते रजिस्ट्रर नहीं हैं, उनसे अपने आईपी द्वारा दी गई तालाह अनुसार केवल अपने आईपी के साथ ई–वोटिंग सहित वीसी /ओवीएम के माध्यम से एससीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण और 37वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्ति के लिए अपने ई–मेल रजिस्ट्रर करना का अनुसूध है। पंजीकृत ई–मेल पता भावी संचार भेजने के प्रयोग किए जा सकते हैं।

37वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर रखने वाले और कंपनी का सदस्य बनने वाले और कट–ऑफ डेट अर्थात शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति 37वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का पालन कर लॉग इन आईडी व पारसाई प्राप्त कर सकते हैं जो कंपनी की वेबसाइट **www.omaxauto.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

की ओर से व उन्हीं के लिए

ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड

हस्ता./—

संजीव कुमार सुबुची

कंपनी सचिव

तिथि : 31.08.2020
स्थान : गुरुग्राम

कर्मचार (रं)/जमानती (यों)/बंधकताओं (ओं) का विवरण	आवस सम्पत्तियों का विवरण	मौजूक करने की तिथि एवं ख़ास सं.
1. श्री सुमन कुमार (कर्मदार एवं बंधकताओं) पुत्र विनोद मंडल निवासी ग्रामीण, सेक्टर 45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201302	ग्रामीण आवासीय माप क्षेत्रफल 50.166 वर्ग मीटर, खसरा नं. 237 मिम, ग्राम मोरौली, परगना-जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाँजियाबाद (उ.प्र.) पर स्थित। आवासीय/सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : 19 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : सोनी सिंह का प्लॉट, दक्षिण : अशोक जर्मा का प्लॉट, माप सम्पत्ति के स्वामी : श्री सुमन कुमार	मौजू सूचना की तिथि : 23.12.2019 कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020 (उ.प्र.) पर स्थित, माप सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती मुनी देवी
1. श्री प्रवीण (कर्मदार) पुत्र गिरिश चन्द्र निवासी : मकान नं. 644, खेड़ा धर्मपुर छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201009, 2. श्रीमती मुनी देवी (सह-कर्मदार एवं बंधकताओं) पुत्री गिरिश चन्द्र निवासी : मकान नं. 644, खेड़ा धर्मपुर छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201009, 3. श्री गिरिश चन्द्र देवी (जमानती) पुत्र राम चन्द्र, निवासी : मकान नं. 644, खेड़ा धर्मपुर छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201009, 4. श्री नरेश (जमानती) मकान नं. 644, खेड़ा धर्मपुर छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201009	आवासीय प्लॉट माप क्षेत्रफल 30 वर्ग गज, खसरा नं. 83 एम से सम्पन्न, ग्राम अलवरपुर, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) पर। अचल आस्तियों सम्पत्ति की सीमा : पूर्व : 14 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : दीनार प्लॉट, उत्तर : प्लॉट जगन्नाथ यादव, दक्षिण : दीनार प्लॉट, माप सम्पत्ति के स्वामी : श्री दीनार कान्त	मौजू सूचना की तिथि : 27.12.2019 कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020 कब्जा करने की तिथि : 3.70,634.78 (रूपये दस लाख सतर हजार तीन सौ चौरवीस एवं अठ्ठतर पैसे मात्र) ख़ास सं. : 101941002366
1. श्री गायत्री मदन पत्नी श्री अन्य मदन (कर्मदार एवं बंधकताओं) निवासी : मकान नं. 464, इमकोत नगर, पन्चवी मथा, सारनपुर, उ.प्र.-247001, 2. श्री अन्य मदन पुत्र श्री कृष्ण लाल मदन (सह-कर्मदार), निवासी : म.नं. 464, इमकोत नगर, पन्चवी मथा, सारनपुर, उ.प्र.-247001, तथा 3. श्री अनिता कुमार मनेश पुत्र श्री मोहन पाल (जमानती), निवासी अर्पित विहार, सारनपुर, उ.प्र.-247001	ग्रामीण आवासीय प्लॉट मकान क्षेत्रफल 11.14 वर्ग मीटर, एमपीएल सं. 12/2198 का थमा, दुकान नं. 60, मोरदा, आनन्द नगर, अम्पाला रोड, जिला सारनपुर, उ.प्र., आनन्द नगर, अम्पाला रोड, जिला सारनपुर, उ.प्र., आनन्द आस्तियों सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : दुकान नं. 61 सड़क एवं लाख छिन्नी हमार एक एम 62, पश्चिम : दुकान नं. 59, उत्तर : दुकान नं. 51 तथा 52, दक्षिण : 20'-00" चौड़ी सड़क। माप सम्पत्ति के स्वामी : गायत्री मदन एवं अन्य मदन	मौजू सूचना की तिथि : 16.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020 कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020 कब्जा करने की तिथि : 4.86,101.39 (रूपये दस लाख छिन्नी हमार एक सौ एक एम 62 एवं पैसे मात्र) ख़ास सं. : 100941004791
1. श्री गायत्री मदन पत्नी श्री अन्य मदन (कर्मदार एवं बंधकताओं) निवासी : म.नं. 464, इमकोत नगर, पन्चवी मथा, सारनपुर, उ.प्र.-247001, 2. श्री अन्य मदन पुत्र श्री कृष्ण लाल मदन (सह-कर्मदार), निवासी : म.नं. 464, इमकोत नगर, पन्चवी मथा, सारनपुर, उ.प्र.-247001, तथा 3. श्री अनिता कुमार मनेश पुत्र श्री मोहन पाल (जमानती), निवासी अर्पित विहार, सारनपुर, उ.प्र.-247001	ग्रामीण आवासीय प्लॉट मकान क्षेत्रफल 11.14 वर्ग मीटर, एमपीएल सं. 12/2198 का थमा, दुकान नं. 60, मोरदा, आनन्द नगर, अम्पाला रोड, जिला सारनपुर, उ.प्र., आनन्द नगर, अम्पाला रोड, जिला सारनपुर, उ.प्र., आनन्द आस्तियों सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : दुकान नं. 61 सड़क एवं लाख छिन्नी हमार एक एम 62, पश्चिम : दुकान नं. 59, उत्तर : दुकान नं. 51 तथा 52, दक्षिण : 20'-00" चौड़ी सड़क। माप सम्पत्ति के स्वामी : गायत्री मदन एवं अन्य मदन	मौजू सूचना की तिथि : 16.01.2020 कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020 कब्जा करने की तिथि : 4.86,101.39 (रूपये दस लाख छिन्नी हमार एक सौ एक एम 62 एवं पैसे मात्र) ख़ास सं. : 100941004791

दिनांक : 01.09.2020 स्थान : नोएडा

कृते शिवालिंक मकैटाइल को-ऑर्परेटिव बैंक लि., अधिकृत प्राधिकारी

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड
 (पि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129)
 पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "स्कॉप मीनार", प्लॉट नं.2ए व 2बी, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली-110 091.

प्रधान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कौलनी मेन रोड, सीतमध्या, विशाखपट्टनम-530 022, ई-मेल : sreekanth@dcil.co.in, दूरभाष : 0891-2523250, फैक्स : 0891-2560581, वेबसाइट : www.dredge-india.com

पतनों की जीवन रेखा

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 30-06-2020 को समाप्त तिमाही
1.	प्रचालनों से कुल आय	16745.48
2.	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पहले)	1177.43
3.	इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	1177.43
4.	इस अवधि के लिए कर-पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	1145.40
5.	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए (कर-पश्चात्) लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात्) से युक्त)	1145.40
6.	ईक्यूटी शेयर पूँजी	2800.00
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्भल्यांकित आरक्षितियों को छोड़कर)	—
8.	निवल मूल्य	—
9.	प्रति शेयर आमदनी (ई.पी.एस.)(रुपयों में)	
	(क) मूल	4.09
	(ख) फीका	4.09